

August 05, 2022

BSE Limited, (Corporate Relationship Department), P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

BSE Code: 530343

National Stock Exchange of India Ltd., (Listing & Corporate Communications), Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051.

NSE Symbol: GENUSPOWER

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement related to AGM, Dividend and other related matters.

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of newspaper advertisement published in the newspapers with regard to the 30th Annual General Meeting, Dividend and other related matters.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

For Genus Power Infrastructures Limited

Ankit Jhanjhari (Company Secretary)

Encl. as above

DIFFERENCE BETWEEN UPDATED & BELATED ITRS

IndiGo stock to fly high if fuel prices cool off: Experts

New Delhi, 4 August

predicted strong revival in air passenger traffic, better cost management, route expansion, and fuel price cooling off may support InterGlobe Aviation's profitability in the medium to long term, analysts say.

They believe the company, which operates IndiGo airline, may potentially see a turnaround in fiscal year 2022-23 (FY23) if it continues to see better yield management and steady air fares, and maintains market leadership.

"We believe that the improving affordability, and pent-up demand of the last two years would emerge as a strong travel demand for next one year, and we expect a spike in air travel in the second half of the current fiscal (H2FY23). IndiGo, being the market leader, would enjoy this benefit, which in turn shall result in a turnaround in FY23 itself," said Mitul Shah, head of research at Reliance Securities, in a co-authored note with Sheryl Fernandes.

The brokerage has increased its revenue estimates by 22 per cent and 11 per cent for FY23 and FY24 respectively. It also raised its Ebitdar (earnings before interest, tax, depreciation, amortisation, and rent), and net profit estimates by 23 per cent/7 per cent, and 216 per cent/18 per cent for FY23/FY24, respectively.

IndiGo's revenue increased by 328 per cent year-on-year (YoY), and 60 per cent quarter-on-quarter (QoQ) to ₹12,860 crore in June quarter of FY23 driven bv increased capacity (up 145 per cent YoY) due to easing

immunitime (notice) years.

WINDS OF CHANGE

Bokerage	Rating	Target	Target price (in ₹)		
Reliance Securities	Buy	2,550			
Prabhudas Lilladher	Hold	1,900			
Kotak Institutional Equities	Buy	2,710			
Edelweiss Securities	Buy	2,446			
Elara Capital	Buy	2,415			
Motilal Oswal Financial Services	Neutral	2,006			

should remain strong in the

long-run. Replacement of

existing current engine

option (CEO) with new

engine option (NEO) by end

of calendar year 2022 shall

enhance

Khan,

note. They

while fleet addition in the

near-term would be muted,

it should rise sharply by

2024. IndiGo would be in a

strong position to compete

internationally with the

addition of 40-45 extra long

range (XLR) flights by 2027.

The brokerage hiked FY23

added

Edelweiss

yields further

and decrease

costs," said Jal

Irani and Iqbal

Securities, in a

that

Source: Brokerage reports

of flight capacity restrictions ond quarter. However, they and resumption of international travel. Passenger yield came in

at ₹5.24 (up 50 per cent YoY and 19 per cent QoQ). Cost of available seat

kilometre (CASK) for the quarter **Despite strong tourist** stood at ₹5.08 demand, corporate (down 9 per cent travel and network YoY but up 6 per expansion, IndiGo's cent QoQ), while performance was revenue per availimpacted in Q1FY23 as able seat kilomehigher fuel costs, and tre (RASK) stood forex losses pulled at ₹4.69 (up 72 per down margins cent YoY and 18

per cent QoQ). Passenger Load Factor (PLF) increased to 79.6 per cent.

"Yields surge was led by pent-up demand, especially in the international market. We anticipate yields to remain subdued in the nearterm on seasonally weak secby 4 per cent and 5 per cent, with higher target of ₹2,446.

Financial Services expected the international market to grow faster than the domestic market, touching 40 per cent of IndiGo's total share over the next five

Motilal Oswal

Analysts said that given the airline's versatile fleet and coverage, IndiGo has a lot of options to operate several routes in the domestic market.

That said, analysts cautioned against increased competition, along with macro-economy uncertainties."

The resurgence of Air India, SpiceJet, and Jet Airways, along with new player Akasa Air, will reduce IndiGo's market share going forward. We have lowered our target price to ₹2,006, and maintain 'Neutral' rating owing to limited upside current levels," from MOFSL said.

Despite strong tourist demand, corporate travel, network expansion and yield improvement, IndiGo's performance was impacted in Q1FY23 as higher fuel costs, and forex losses pulled down margins.

Thus, Elara Securities has reduced FY23 Ebitda by 17 per cent, and FY24 Ebitda by 4 per cent. "We assume FY24 ASKM capacity at 132 billion km from estimated 110 billion km in FY23. We reiterate 'Buy' with a lower target of ₹2,415," it said.

Shares of the airline fell 2.8 per cent in the intraday trade on Thursday, but erased losses to end 0.24 per cent up at ₹1,980 on the BSE. In comparison, the BSE Sensex ended per cent lower.

Missed ITR deadline? You can still file it, but there's a catch

A penalty will be levied and you won't be able to carry forward losses under certain heads

UPDATED RETURN

▶ An updated income tax

return can be filed within

24 months from the end of

the assessment year

be a return of loss

▶ A person can file an

updated return, irrespective

of whether he has or hasn't

furnished an original return

▶ An updated ITR can't be

search and seizure, etc.

filed in certain cases where

BINDISHA SARANG

Taxpayers who missed the July 31, 2022 deadline of filing Income-Tax Return (ITR) may file a belated return. A belated return can be filed for a previous year at any time three months before the expiry of the relevant assessment year, or before completion of assessment, whichever is earlier.

Hence, the effective date for filing a belated return for assessment year (AY) 2022-23 is December 31, 2022.

Consequences of late filing

In Budget 2021, the government reduced the time limit for filing belated ITR from March 31 to December 31.

Deepak Jain, chief executive, TaxManager.in says, "An amendment has been made in Section 234F. The maximum penalty of ₹5.000 will be levied if ITR is filed by December 31. If the taxpaver's total income is less than ₹5 lakh, the penalty won't exceed ₹1,000." Those who file a belated return after December 31 will have to pay a higher fine of ₹10,000.

A taxpayer who files a belated ITR loses several benefits. Soavib Oureshi. associate partner, PSL Advocates & Solicitors, says, "The taxpayer can't carry forward the losses arising from capital gains or from business or profession."

Losses can't be carried forward even if taxes were paid on time. Jain says. "The exception to this rule is loss from house property, which can be carried forward even in the case of a belated return."

Qureshi adds, "The taxpayer will also have to pay interest under Section 234A at 1 per cent per month, or part thereof, on tax due until the payment of taxes. If the assessee is entitled

to refund out of the taxes MONEY prepaid during the financial year (such as tax deducted at source, tax collected at source, or advance tax), interest on the refund is computed from April 1 of the relevant assessment year if ITR is filed on time. Naveen Wadhwa, deputy general

manager, Taxmann, says, "In the case

vebsite bank.sbi

Date: 05.08.2022

Place: Mumbai

OSBI

Transaction Banking Department, Corporate Centre, 2nd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021

Request For Proposal for Procuring, Processing and Personalisation of Cards and Services.

State Bank of India has issued a 'Request For Proposal' for

Procuring, Processing and Personalisation of Cards and Services.

Please refer https://etender.sbi or 'Procurement News' at SBI

Kopran Limited

Regd. Office: Parijat House, 1076, Dr. E. Moses Road, Worli, Mumbai - 400 018.

CIN: L24230MH1958PLC011078

Website: www.kopran.com, Email ID: investors@kopran.com

Tel. No.: 022-43661111 Fax No.: 022-24950363

NOTICE OF 63rd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO

CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE DATES AND FINAL DIVIDEND Members of Kopran Limited may please note that the 63rd Annual General Meeting

(AGM) of the Company will be held through Video Conference (VC)/ Other Audio-Visua Means (OAVM) on Monday, 29th day of August, 2022 at 11:30 A.M. (IST), i

compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), the

Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), read with

General Circular No. 2/2022 dated 05.05.2022 & other circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI circular dated 13.05.2022, to transact

. Members may also please note that pursuant to the provisions of Section 91 of the Ac

read with relevant rules and Regulation 42 of SEBI (LODR), the Register of Member

and Share Transfer Books of the Company will remain closed for the purpose of AGM 8

Dividend from Monday, 8th day of August, 2022 to Wednesday, 10th day of August

2022 (both days inclusive). The Board of Directors in their meeting held on 27th day of

May, 2022 has recommended a final dividend of Rs.3/- per equity share of face value of

Rs.10/- for the financial year 2021-22, subject to approval of shareholders at the

B. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Repor

2021-22 will be sent only through electronic mode to those members whose emai

addresses are registered with the RTA/ Depository Participant(s). The Notice of the 63' AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website a www.kopran.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.and.National.Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

and on the website of e-voting service provider i.e. National Securities Depositor

a. Members will have an opportunity to cast their vote(s) remotely on the businesses as

b. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available through the various modes as may be provided in the Notice, which will be sen

email address at investors@kopran.com 48 hours in advance of the meeting time

. Manner of registering e-mail and/or updating KYC including bank details for receiving

i For shares held in dematerialized mode: Register/update the details with respective Depository Participant (DP) as per the process advised by the DP: and

ii. For shares held in physical mode: SEBI vide its circular dated 3rd November, 202

has mandated registration of PAN. KYC details including e-mail, bank details

and nomination details. Members are requested to submit the aforesaid

details with the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company i.e Bigshare Services Pvt. Ltd by sending duly filled form ISR-1 (available a https://www.bigshareonline.com/Resources.aspx) and other relevant forms at

Bigshare Services Pvt. Ltd. Office No S6-2. 6th Floor, Pinnacle Business Park, Nex

to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093

. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the

AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote

This notice is issued for the information and benefit of all the members of the Compan

through email and made available on website of the Company/NSE/BSE. c. Members can mail their questions on Annual Report 2021-22 from their registered

set forth in Notice of the AGM either through remote e-voting prior to the AGM or

through e-voting system during the AGM. The manner of remote e-voting prior to the AGM or through e-voting system during the AGM by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also

the businesses that will be set forth in the Notice of the AGM.

Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

. Manner of casting vote(s) through e-voting:

be made available on the website of the Company.

The same will be addressed at the AGM.

A belated return has to be filed on or before three months prior to the end of the relevant assessment year, or completion of assessment, whichever is earlier

BELATED RETURN

▶ The updated return can't In case of a belated return, it can be a return of loss

A person can only furnish a belated return provided he hasn't furnished the original return within the due date under Section 139(1)

No additional tax liability is applicable on filing of an updated return (only additional interest under Section 234A and late fees

have been initiated under Section 234F) ▶ Additional tax is applicable No such restrictions apply in the case of on filing of updated return filing belated returns

of a belated return, interest on refund is calculated from the actual date of filing of return."

Big trouble for serial non-filers

Serial non-filers may have to face serious consequences. Wadhwa says. 'They will not be granted tax refund. Interest and late fees will be levied. Prosecution could be launched under Section 276CC. They could also be subjected to higher TDS.

A proposal was introduced in last year's Budget, according to which non-filers (who had not filed their tax

> returns in the two years immediately before the one in which tax is to be deducted) will have to pay TDS at 5 per cent or twice the normal rate. Wadhwa says, "In financial year 2022-23. TDS will be levied at a higher rate if the taxpayer has not filed the return for AY 2021-22 (financial year 2020-21),

and that person's aggregate of tax deducted and collected at source for 2020-21 is ₹50,000."

YOUR

Dy. General Manger (Cards)

A person who couldn't file ITR in previous years due to genuine difficulty can apply for condonation of delay and file ITR once he gets

the permission.

Updated ITR

The Finance Act 2022 inserted subsection (8A) in Section 139 to enable the filing of updated return, which has a bearing on belated ITRs. Suresh Surana, RSM India says "Under Section 139(8A) of the I-T Act, any person, whether or not he has furnished a return, may furnish an updated return of his income, or the income of any other person in respect of which he is assessable under the I-T Act, within 24 months from the end of the assessment year, subject to certain conditions and on payment of additional tax."

Maneet Pal Singh, partner, I.P. Pasricha & Co says, "ITR-U (U stands for updated) can be filed for the last two vears whereas belated return relates to a specific assessment year. An assessee who files a belated return can claim a refund. One who files ITR-U can't."

Things to note

While furnishing belated ITR, select the option 'Filed under Section 139(4)—After the due date'. Remember that a belated return filed under Section 139(4) can be revised.

Aditya Birla Capital Limited



Regd. Office: Indian Rayon Compound, Veraval - 362 266, Gujarat | Tel: 91 2876 243257 | Fax: 91 2876 243220 CIN: L67120GJ2007PLC058890 | www.adityabirlacapital.com | abc.secretarial@adityabirlacapital.com

AN EXTRACT OF THE CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

(₹ crore except per share data)

Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
	30 th June 2022 (Unaudited)	31 st March 2022 (Audited)	30 th June 2021 (Unaudited)
Total Revenue from Operations	5,590.28	22,229.91	4,298.99
Net Profit for the period Before Tax	613.68	2,286.72	397.62
Net Profit for the period After Tax (including Non-Controlling Interest)	423.82	1,660.07	270.34
Net Profit for the period After Tax attributable to the Owners of the Company	429.47	1,705.97	302.03
Total Comprehensive Income for the period attributable to Owners of Company [Comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	359.00	1,702.43	290.27
Paid-Up Equity Share Capital (Face Value of ₹10 each)	2,416.51	2,416.31	2,415.44
Earnings per Share of ₹10 each (^ - not annualised)			
(a) Basic - (₹)	1.78^	7.06	1.25^
(b) Diluted - (₹)	1.78^	7.05	1.25^

Place: Mumbai

Date: 3rd August, 2022

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company, at their Meetings held on 3rd August, 2022.
- The standalone financial results are available at Company's website viz. www.adityabirlacapital.com and on the websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). Key Standalone financial information is as indicated below:

Particulars		Year Ended	Quarter Ended
	30 th June 2022 (Unaudited)	31st March 2022 (Audited)	30 th June 2021 (Unaudited)
Revenue from Operations	7.82	452.71	41.73
Profit/ (Loss) for the period Before Tax	0.18	419.05	35.17
Profit/ (Loss) for the period After Tax	1.71	344.69	26.49
Total Comprehensive income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1.67	344.72	26.45

3. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results is available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.adityabirlacapital.com

> For and on behalf of the Board of Directors of Aditya Birla Capital Limited

An Aditya Birla Group Company

Arun Adhikari Director DIN: 00591057

> For and on behalf of KOPRAN LIMITED Sunil Sodhani

CIN: L23201DL2001PLC174076 Regd. Off: E-20, South Extension- I, New Delhi- 110049

Tel: +91-11-41648566/8577; Website: www.salasartechno.com

SALASAR SALASAR TECHNO ENGINEERING LIMITED

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), 2015 (LODR), a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 09th August 2022 through video conferencing inter-alia o consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results o he Company for the Quarter ended 30th June, 2022.

In accordance with Regulation 46(2) and 47(2) of LODR, the details of the said meeting are also available on website of the Company viz. http://www.salasartechno.com as well as or he website of Stock Exchanges at http://www.bseindia.com and a http://www.nseindia.com By order of the Board of Director

For Salasar Techno Engineering Limited

Date: 04.08.2022 Place: New Delhi Company Secretary



FOR SELECTION OF SERVICE PROVIDER FOR **ANTIPHISHING / ANTI ROGUE APPS SERVICES** FOR 3 YEAR PERIOD

REQUEST FOR PROPOSAL

RFP REFERENCE NUMBER: RFP/ITD/006/22-23

DATED 30.07.2022 The RFP document for the above tender is available in bank's e-tendering website https://iobtenders.auctiontiger.net & www.iob.in. For RFP details and future amendments, if any, keep

referring to the following website https://iobtenders.auctiontiger.net.

Genus Power Infrastructures Limited

(Registered Office: G-123, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh)
Tel.: +91-120-2581999; E-mail: cs@genus.in; Web.: www.genuspower.com; CIN: L51909UP1992PLC051997

Notice of the 30th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information Notice of the 30th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus Power Infrastructures Limited ("Company") will be held on Thursday, September 08, 2022 at 3:30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI, in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") to transact the business as set forth in the Notice of AGM. In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial

year 2021-22 will be sent to all those members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depositiony Participant(s). The aforesaid documents shall also be available on website of the Company at www.genuspower.com, website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges at

www.bseindia.com and www.nseindia.com. Members are requested to contact the Depository Participants in case of shares held in electronic form or the Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA"), in case the shares are held in physical form for registering/validating/updating their email address and mobile nos. In case of any queries, Members may write to "nichetechpl@nichetechpl.com". Members who have not registered their einvalidates may write to increasing members, but not significant members with rate not registered member and address and mobile number registered with the Company, by sending an e-mail request to the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio. Members holding shares as on the cut-off date i.e. September 01, 2022 (including Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company) may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting during the AGM by following the procedures/instructions, mentioned in the Notice of the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting and joining the AGM are provided in the notice of AGM. Please read the instructions mentioned in the notice of

share of face value of Re.1/- each (25% of the face value) for the FY 2021-22 to the Members for their approval. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 02, 2022 to Thursday, September 08, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of Members to the dividend. The dividend, once approved by the Members in the ensuing AGM, will be paid on or before October 07, 2022 to those Members whose name appears in the Register of Members as of the close of business hours on Thursday, September 01, 2022 subject to deduction of tax at source, where applicable. The dividend will be paid through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details. For Members who have not updated their bank account details, dividend warrant/cheque will be sent to their registered address, subject to availability of postal services. To avoid delay in receiving dividend directly in bank account, Members are requested to update their bank details with their Depository Participants, where shares are held in dematerialised mode, and

with the RTA/Company, where the shares are held in physical mode. For Genus Power Infrastructures Limitec Company Secretary

the AGM before exercising your vote. The Board of Directors has recommended a dividend of Re.0.25 (Twenty Five paisa) per equity

Place : Jaipur Dated : August 4, 2022

Company Secretary

Date: 4th August, 2022 Place: Mumbai

through remote e-voting and e-voting during the AGM.

and in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI.

देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार कमलेश कुमार, कमलेश कुमार; मकान नं. 236 खिचरीपुर, पूर्व दिल्ली के पास, पब्लिक स्कल के पास, नई दिल्ली, दिल्ली -110091, मध देवेदी: मकान नं, 236 खिचरीपर, पर्व दिल्ली के पास, पब्लिक स्कुल के पास, नई दिल्ली, दिल्ली -110091, प्रमोद कुमार शुक्ला; खसर नं. 10, शनि बाजार चमन विहार लोनी, लोनी देहात गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201102, राजीव श्रीवास्तव; 49 जीएफ शक्ति खंड 4 इंदिरापुरम, शिप्रा सन सिटी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश -201014 को 02.07.2021 की सचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज़ खाता नं. HHLNOD**00357651 की राशि रू.12,20,259.25 (रूपये बारह लाख बीस हजार दो सौ उनसठ और पच्चीस पैसे मात्र) और 26.06.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतददारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 03.08.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू..12,20,259.25 (रूपये बारह लाख बीस हजार दो सौ उनसठ और पच्चीस पैसे मात्र) 26.06.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. एसएफ 12, छत के अधिकार के साथ दूसरी मंजिल, पीछे की दाहिने हाथ की ओर, प्लॉट नं. बी 8/1, डीएलएफ अंकर विहार लोनी. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001.

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड

सीआईएनः L74999DL2007PLC277039

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल यूनिट नं. 1.14(ए), अवंता बिजिनेस सेंटर, सदर्न पार्क.

डी-2, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110007, भारत

टेलीफोनः +91-011-3044 6511 । टेलीफोनः +91-120-4648 100। फैक्स नं.: +91-120-4648 115

वेबसाइटः www.iexindia.com । ई-मेलः compliance@iexindia.com

सार्वजनिक सूचना

16वीं वार्षिक आम बैठक, ई—वोटिंग की जानकारी तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन–देन के लिए

. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 16वीं (सोलहवीं) वार्षिक आग

बैठक (**'एजीएम') शुक्रवार, 2 सितंम्बर, 2022 को दोपहर 12 बजे** भारतीय मानक समय **('आईएसटी**") पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों (**'ओएवीएम**') के

कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ("**एमसीए**") द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल

2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 तथा 5 मई, 2022 (सामुहिक रूप र

"एमसीए परिपन्न" संदर्भित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड (संबी) द्वारा जारी संबी परिपन्न

दिनांक 13 मई, 2022 ("**सेबी परिपत्र**") के अनुपालन में 16वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष

2021—22 की वार्षिक रिपोर्ट वीरवार, 4 अगस्त, 2022 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पर्न उन सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई—मेल पते कम्पनी / रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.iexindia.com (Investors टैब के तहत), स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात क्रमशः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bscindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.nscindia.com और आरटीए (केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) की वेबसाइट

-समय–समय पर संशोधित अधिनियम की धारा 91 तथा उसके साथ पठित उसके तहत निर्मि

नियमों के प्रावधानों के अनुसार, शेयरबारक कृपया ध्यान दें कि एजीएम के उद्दरेश्य से सदस्य के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 से

कर राजार राजा क्रान्सा का संवर जंतरन वुत्तरावह युक्तवार, 2022 र युक्रवार, 2 वित्तनबर, 2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी और अन्तिम लाभांग वे उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 निर्धारित की गयी है। एक बार आगार्ग एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद अंतिम लाभांश का भुगतान उन्

श्रीयकारकों को दलेक्ट्रॉनिक का से किया जाएगा जिन्होंने आने बैंक खाते के विवरण को

अपडेट किया है। जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के अनुसार सदस्यों को

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई—वोटिंग") के उपयोग द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त प्रस्तावों पर अपना मतदान करने सुविधा प्रदान की गयी है। रिमोट ई—वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के

लिए सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कम्पनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिन टेक") की ई-वोटिंग से संबंधित यजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित सचना और निर्देश सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं। एजीएम के दौरान अभौतिक मोड, भौतिक मोड में भेगर रखने वाले सदस्यों और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना रीमेल पता पंजीकत नहीं

किया है, द्वारा रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किय

रिमोट ई—वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि सोमवार, २९ अगस्त, २०२२, को **९.०० बजे पूर्वा. भा.मा.स**.

इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी सदस्य केफिनटेक की वेबसाइट यानी https://evoting.kfintech.com/ के माध्यम

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद केफिनटेक दारा ई—वोटिंग

. ऑडचूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई—वोटिंग

की अनमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, कोई व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिष्

अर्थात शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षि

लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग

कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है औ[,]

कट—ऑफ तिथि अर्थात शक्रवार. 26 अगस्त. 2022 तक शेयर धारण करता है, वह एजीएम की सूचना में प्रदत्त रीति के अनुसार यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

केवल वे सदस्य / शेयरधारक, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम

उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है,

एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। तथापि, रिमोट ई–वोटिंग व . गध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे लेकिन उन्हें एजीएम

दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य अपने सुरक्षित लॉगिन विवरण क

उपयोग करके केफिनटेक की ई—वोटिंग वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com/

पर लॉग इन करके वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। सदस्यों के लिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश 16वीं एजीएम की सूचना

ई—वोटिंग के परिणाम कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट **www.iexindia.com** पर एजीएम के दे

कार्य दिवसों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किय

प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मतों की प्राप्ति के अध्यधीन प्रस्तावित प्रस्तावों को वार्षिव

कंपनी के निदेशक मंडल नेएमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सदस्यता संख्या—एफसीएस 6529) के नामित भागीदार मोहम्मद नाजिम खान को निष्पक्ष और

. पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किय

किसी पूछताछ के मामले में, सदस्य कृपया केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com के "डाउनलोड" खण्ड में उपलब्ध Frequently Askec

Questions (FAQs) for shareholders तथा e-voting, User Manual for shareholder

भौतिक रूप में प्रतिभूति रखने वाले सदस्य और गैर-व्यक्तिगत सदस्य टोल-फ्री नंबर

1800—3094—001 पर केफिनटेक से संपर्क कर सकते हैं या किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री प्रेमकुमार नायर से einward.ris@kfintech.com तथा

2. एनएसडीएल के माध्यम से शेयर रखने वाले सदस्य, एनएसडीएल हेल्पडेस्क रं

evoting@nsdl.co.in पर लिखकर संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर

सीडीएसएल के माध्यम से शेयर रखाने वाले सदस्य

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिखकर या 022-23058542 / 43 पर कॉर्ब

निदेशक मण्डल के आदेशानसा

विनीत हरलालक

सदस्यता सं. एसीएस.16264

कृते इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड

सीएफओ, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

का सन्दर्भ ले सकते हैं या निम्नलिखित के अनुसार सम्पर्क कर सकते हैं :

evoting@kfintech.com पर ईमेल लिखकर संपर्क कर सकते हैं।

1800—1020990 या 1800—224430 पर कॉल कर सकते हैं।

करके सीएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई—वोटिंग समाप्त होने की तिथि वीरवार, 1 सितम्बर, 2022, को **5.00 बजे भा.मा.स**.

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी

उनके लिए लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चेक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।

रिमोट ई—वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग हेतू निर्देश:

एजेंट ("रजिस्ट्रार" / "आरटीए") / डिपॉजिटरी भागीदारों ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं।

https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।

बुक क्लोजर तथा रिकार्ड तिथि :

की सविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे।

उपलब्ध कराये गये हैं।

गया है।

स्थानः नोएडा

दिनांकः ४ अगस्त, 2022

जाएगा, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

आम बैठक की तारीख को पारित माना जाएगा।

ध्यम से संचालित की जायेगी। सदस्य एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यग

दिनांक : 03.08.2022 स्थान : गाजियाबाट

से भाग लेने में सक्षम होंगे।

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

सही/

आम जनता को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मृथूट फाईनान्स लि. द्वारा | 05th August 2022 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब 09th September 2022 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

> कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छूड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464. 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

05th August 2022 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थिगित कर दी गई है और अब 08th September 2022 को सार्वजनिक ु नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

> कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

कब्जा सूचना

ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 वे साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता(ओं) /सह—उधारकर्ता(ओं को **मांग सचनाएँ** जारी कर उधारकर्ताओं को उनके नामों के विरुद्ध देय राशि लाग आकरिमक खर्चों के रूप में भविष्य के ब्याज के साथ, लागत, भुगतान और/या वसूली की दिनांक तक किए गए शुल्क आदि के साथ के साथ उक्त सूचना की प्राप्ती से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

क्र.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/	13(2) सूचना दिनांक/	दिनांक/समय और
सं.		गारंटर/बंधककर्ता	बकाया देय (रूपये में) तक	कब्जे का प्रकार
1	45138640000014 और 45139660000141	1) मैसर्स शुभम कलेक्शन अपने मालिक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री शुभम शर्मा, 2) श्री शुभम शर्मा 3) श्रीमती संतोष शर्मा (गारंटर)	21.04.2022 / रू. 11,12,886/— (रुपये ग्याराह लाख बारह हजार आठ सौ छियासी मात्र) दिनांक 13.04.2022 तक	दि. 02.08.2022 समय : अर्पाह्न 03 : 15 बजे प्रतिकात्मक कब्जा

<mark>त्त्याभृत परिसंपत्तियों का विवरण :</mark> फ़ीहोल्ड आवासीय भवन म्यूनिसिपल सं. ८, नया सं. ९ मापक 70 वर्ग गज स्थित मोहल्ला कांजीमल, गाजियाबाद **श्रीमती संतोष शर्मा, पत्नी स्व. श्री रोशन लाल शर्मा** द्वारा स्वामित्व **सीमांकन प्रकार : पूर्व :** ८ फुट रासत, **पश्चिम :** पक्की सराय, **उत्तर :** संतो शर्मा की संपत्ति. **दक्षिण :** अन्य की संपत्ति

2 30689440	080000		12.04.2022 / रू. 5,71,142/— (रुपये पांच लाख इंकहत्तर हजार एक सौ बयासी मात्र) दिनांक 07.04.2022 तक	दि. 02.08.2022 समय : अर्पाह्न 2 : 00 बजे प्रतिकात्मक कब्जा
------------	--------	--	--	--

प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का विवरण : अचल संपत्ति एक प्लॉट निहित खसरा सं. 364 मीन् किसचियन नगर, बाबू पदबस्त ग्राम, परगना, लोनी, गीजियाबाद—201102, मापक 50 वर ाज, **श्री महेश शर्मा, पुत्र श्री अतर सिंह** द्वारा स्वामित्व **सीमांकन प्रकार : पूर्व :** श्रीपाल का प्लॉट **पश्चिम :** अन्य का प्लॉट, **उत्तर :** 14 फुट चौड़ा रास्ता, **दक्षिण :** जयराज का खेत ।

जबिक, ऊपर उल्लेखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता, देय राशि चुकाने मं विफल रहे हैं, एतद द्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लेखित उधारकर्ताओं को और सामान्य रूप से जनत को सूचित किया जाता है कि जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त दिनांकों पर उपर्युक्त यहां वर्णित संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का **कब्जा प्राप्त** कर लिया है। विशेष रूपसे ऊपर उल्लेखित उधारकर्ताओं/ सह-उधारकर्ताओं/ गारंटरों, बंधककर्ताओं और आम जनता को सामान्य रूप से एतद् द्वारा उपर्युक्त संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्ति से कोई भी व्यवहार करने से आगाह किया जाता है और उक्त संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : हरियाणा दिनांक: 04.08.2022

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी प्रति. जना रमॉल फाइनेंस बेंक लिमिटेड

्राजना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित व्यावस

पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलुर ला इनर रिंग रोड. ईजीएल बिजनेस पार्क के पास. चलाघण्टा, बेंगलोर–56007 1,शाखा कार 16/12, दूसरा तल, उब्ल्यू. ई.ए., आर्या समाज रोड़, करोल बाग, दिल्ली–110005



स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

इक्विटी शेयरधारकों के लिये सूचना

कंपनी की इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित निवेश शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 यथा संशोधित (नियमावली) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागु होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है। इस नियमावली में अन्य नों के अनावा ऐसे सभी दावा-रहित लाभांश तथा शेयरों संरक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाता में अंतरण का प्रावधान है जिसके लिए लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभांश का दावा अथवा भुगतान नहीं किया

कंपनी द्वारा घोषित वर्ष 2014-15 का अंतिम लाभांश नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार उस कोष में अंतरण के लिये नियत है।

लाभांश (वर्ष)	लाभांश के घोषणा की तिथि	आईईपीएफ सस्पेंस खाता में शेयरों का अंतरण
अंतिम (2014—15)	24.09.2015	31.10.2022 के बाद

कंपनी ने आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरण के लिये नियत शेयरों का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराते हुए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आर एंड टीए के पास उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर ऐसे संबंधित शेयर धारकों को व्यक्तिगत सूचना (ऐं) भेज दी हैं जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों से अप्रदत्त अथवा दावा-रहित रहा है ऐसे शेयर धारकों तथा आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरण के लिये नियत शेयरों के विवरणों को अपनी वेबसाइट <u>www.sail.co.in</u> पर कंपनी ने अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरित किये जाने के लिये नियत शेयरों के विवरणों की जांच के लिये उपरोक्त वेबसाइट पर शीर्षक 'Investors Relations' देखें।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि अपने दावा-रहित लाभांश का दावा प्रस्तुत करें। अधिक विवरणों के लिये शेयरधारक उसके पंजीकृत कार्यालय में (अथव investor.relation@sail.in पर ईमेल) द्वारा कंपनी से अथवा उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट ((पता :एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, यूनिट : स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहला तल, एफ -65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-१,नई दिल्ली-110020, टेली: 91 11 41406149) से संपर्क करें अथव admin@mcsregistrars.com पर ईमेल करें) तथा इस सूचना के 30 दिनों के भीतर कंपनी के पास दावा-रहित लाभांश के लिये वैध दावे दाखिल करें। यदि नियत तिथि तक कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी नियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिये नियत प्रक्रिया का अनुसरण कर आगे कोई भी सूचना दिए बिना संबंधित शेयरों का आईईपीएफ सस्पेंस खाता में अंतरित कर देगी।

लेकिन, शेयरधारक नियमावली के अनुसार तथा उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजों को जमा कर ऐसे शेयरों पर उपचियत सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित लाभांश तथा तत्स्थानीय शेयरों दोनों को आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते है। इस संदर्भ में शेयरधारक www.iepf.gov.in पर उपलब्ध विवरणों को भी देख सकते हैं।

नियमावली के अनुसार दावा - रहित लाभांश राशि तथा आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के संदर्भ में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

(एम.बी. बालाकष्णन

पंजीकृत कार्यालय : इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 फोन : +91 11 24367481; फैक्स : +91 11 24367015 कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर : L27109DL1973GOI006454,

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः ४ अगस्त, 2022

सार्वजनिक सूचना

. !साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, **मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि**. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूटे चेम्बर्स, बैनर्जी रोद्ध कोच्चि — 682018 केरल. भारत. CIN: L65910KL1997PLC011300, दरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (02.07.2021 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

प्रथम नीलामी की तिथि: 13.08.2022

Bhadra-(RA): MDL-559, MUL-1999, RGL-1565, 2563, 2620, 2646, 2661, 2675, 2677, 2684, 2690, 2717, 2721, 2722, 2723, 2728, 2730, 2732, 2733, 2747, 2748, 2762, 2763, 2769, 2790, 2792, 2799, 2816, 2835, 2836, 2838, 2839, 2848

द्वितिय नीलामी की तिथिः 16.08.2022, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., Ground Floor, Ward-18, Near Bhadra Main Bus Stand, Hissar Road, Dist. Hanumangarh-335501

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रम्शः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर

PPAP

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड सीआईएनः एल७४८९९ डीएल१९९५ पीएलसी०७३२८१

पंजीकृत कार्यालयः 54, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-।।।, नई दिल्ली-110020 **गरपोरेट कार्यालयः** बी–206ए, सेक्टर–81, फेज–11, नोएडा–201305, उत्तर प्रदेश **फोनः** +91-120-4093901 वेबसाइटः www.ppapco.in, ई-मेलः investorservice@ppapco.com

कंपनी शेयरधारकों को नोटिस विषयः निवेशक शिक्षण और बचाव कोष ("आईईपीएफ") में

इक्विटी शेयरों का अनिवार्य अंतरण एतदद्वारा निवेशक शिक्षण और बचाव कोष प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण और रिफं

नियमावली, 2016 **("नियमावली")** के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधा अनसरण में सचित किया जाता है कि कंपनी लगातार सात या अधिक वर्षों के लिए अभक्त या अदावि लाभांश वाले सभी शेयर कंपनी को आईईपीएफ के नाम में अंतरित करने हैं।

शेयर और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अदावित लाभांश आईईपीएफ में अंतरण हेतु नियत हैं। विवर कंपनी की वेबसाइट https://www.ppapco.in/financials#unpaid_and_unclaimed_dividen

कंपनी ने सभी शेयरधारकों जिनके शेयर और अदावित लाभांश आईईपीएफ में अंतरित किए जाने लिए संभाव्य हैं, को व्यक्तिगत नोटिस भेज दिए हैं।

अभुक्त लाभांश का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., नोबर हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, फोन नं: 011-41410592, ई-मेलः iepf.shares@linkintime.co.in को पत्र भेजक 30 अक्टबर, 2022 या इससे पूर्व दावा किया जा सकता है।

नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ में अंतरित शेयरों और अदावित लाभांश के संबंध में कंपनी के विरुद कोई दावा नहीं बनेगा। हालांकि, संबंधित शेयरधारक प्रक्रिया का अनुपालन कर और नियमावली के तहत यथानिर्धारित दस्तावेज

का जमा कर आईईपीएफ में अंतरित शेयर और अदावित लाभांश का वापस दावा कर सकते हैं। हिते पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड

दिनांकः 04 अगस्त. 2022

पंखुड़ी अग्रवाल कंपनी सचिव और अनुपलान अधिकारी

SALASAR सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड CIN: L23201DL2001PLC174076

पंजी. कार्यालय : ई–20, साउथ एक्सटेशन नई दिल्ली–110049 टेली : +91-11-41648566 / 8577, वेबसाइट : www.salasartechno.com सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेवी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताए), 2015 (एलओडीआर) के विनियम 47(1) के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के स्टैंडलोन् और समग्र अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के साथ–साथ अनुमोदन के लिए वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार, 09 अगस्त, 2022 को आयोजित की जाएगी।

रलओडीआर के विनियम 46(2) और 47(2) के अनुपालन में, उक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाइट http://www.salasartechno.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज http://www.bseindia.com और http://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए हस्ता./- (राहुल रस्तोगी)

दिनांक : 04. 08.2022 स्थान : नई दिल्ली

कंपनी सचिव

Genus जीनस पावर इन्फ्रास्ट्क्चर्स लिमिटेड

् (पंजीकृत कार्यालयः जी-ो23, सेक्टर-63, नोएडा-201307 (ज्लर प्रदेश) फोन: +91-0120-2581999, ईमेल: Cs@genus.in, वेबसाइट: www.genuspower.com, CIN: L51909UP1992PLC051997 30वीं वार्षिक साधारण सभा, बहीबंदी तथा रिमोट ई–वोटिंग की सूचना तददारा सचित किया जाता है कि जीनस पावर इन्फ्रास्टक्चर्स लिमिटेड की 30वीं वार्षिक साध ") गुरूवार, 08 सितम्बर 2022 को सायं 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियों कॉन्फ्रोसिं (''बीसी'') अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यामाँ (''ओएवीएम'') की सुविधा के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके निर्मित नियमाँ तथा सेबी (सूचीयन दायित्वाँ तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के माथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं सेबी दारा जारी उपयक्त सर्क्यलरों (''उपयक्त सर्क्यलरों के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालने में, एजीएम के नोटिस में दी गई कार्यवाही को पूरा करने हेतु

सदस्यों को भेजी जायेगी. जिनके ईमेल पते कम्पनी ⁄रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') ∕डिपॉजिटर गर्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज, कंपनी की वेबसाइट 'www.genuspower.com' सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसल''/CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.co और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध रहेगें। सदस्यों से अनुरोध हैं कि वह अपने ईमेल पते और मोबाइल नं. को पंजीकरण/सत्यापन/अपडेट करने के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी, (यदि शेयर डीमैट में है) एवं कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में है), से संपर्क करें। किसी प्रश्न के मामले में, सदस्य "nichetechpl@nichtechpl.com" पर लिख सकते हैं। जिन सदस्यों : अरुपान है- मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे इसाक्षरित अनुरोध की स्क्रैन की गई प्रति के साथ ईमेल आईडी, भोषा है- मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे इसाक्षरित अनुरोध की स्क्रैन की गई प्रति के साथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन कॉपी और क्लाइंट मास्टर कॉपी (यदि शेयर डीमैट में है) एवं शेयर प्रमाण पत्र की प्रति (यदि शेयर भौतिक रूप में है) cs@genus.in पर एक ईमेल अनुरोध भेजकर ईमेल पता और मोबाइल नंबर कंपनी के साथ पंजीकत करवा सकते है।

ुशरा जाजारा भावजुर गांचर करना कर साथ जाजारू का लागा स्वाहत करने वाले सदस्य (वे सदस्य भी, जिनके पास भौतिक रूप कर ऑफ तिथि 01 सितम्बर, 2022 को श्रोयर धारित करने वाले सदस्य (वे सदस्य भी, जिनके पास भौतिक रूप में श्रोयर हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं,), 30वीं एजीएम की सूचना में निर्दिश कार्यवाही पर एजीएम के दौरान एजीएम के नोटिस में उल्लेखित प्रक्रियाओं ∕ निर्देशों का पालन करके ई-वोटिंग अथवा दुरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा से इलैक्ट्रोनिक माध्यम से अपना मतदान कर सकते है ।ई-वोटिंग और एजीएम अवना सुर्वाच आपना अनुभाव कर्मा क्षार्थ किया है। में शामिल होने की विस्तृत फिक्रया एवं निर्देश एजीएम के नोटिस में निहित है। कृपया अपना वोट देने से पहा एजीएम की सुचना में अल्लिखित निर्देशों को पढ़े।

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रू 0.25 (पच्चीस पैसे) प्रति ईक्विटी शेयर (1 रू. अंकित मूल्य पर)(अंकित मुल्य का 25 प्रतिशत) लाभाश शेयरधारको की अनुमति के लिए प्रस्तावित किया है।शेयरधारक का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण रजिस्टर शुक्रवार, 02 सितम्बर, 2022 से गुरूवार 08 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन सहित), वार्षिक सामान्य बैठक के लिए एवं लाभांश के लिए सदस्यों के अधिकारों का निर्धारण करने के हेतु बंद रहेंगे। यदि शेयरधारक एजीएम में अनुमति दे देते है तो लाभांश का भुगतान (स्त्रोत पर कर कटौती के अधी यदि लागु है) 07 अक्टूबर 2022 या उससे पहले, उन शेयरधारको कर दिया जाएगा जिनका नाम सदस्यों कं र्जाजर में 0 1 सिताब्द 2022 को व्यावसायिक घंटों के बंद होने के समय उपस्थित रहता है। लाभांश का भुगताव विभन्न ऑनलाइन हस्तारण माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए लाभांश वारंट⁄चेक उपने पंजीकत पते पर डाक सेवाओं की उपलब्धता होने पर भेजा जाएगा। सीधे अपने बैंक खातें में लाभांश पाप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पाटिसिपेंट्स, (यदि शेयर डीमैट में है), और आरटीए/कंपनी, (यदि शेयर भौतिक रूप में है), के साथ अपने बैंक विवरण को अपडेट करें।

कते जीनस पावर इन्फ्रास्टक्चर्स लिमिटेड टिनांकः ४ अगस्य २०२२

शाखा बलंदशहर

) भारतीय स्टेट बैंक दनकौर रोड, सिकंदराबाद कब्जा सम्बन्धी नोटिस चल / अचल सम्पत्ति हेतु नियम 8(1)

सिक्योरिटिजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002, (2002 का एक्ट नं0 54) तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गए खातें में उसके नाम के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया है। ''उ<mark>षारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्य समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा</mark> (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।" ऋणी को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे **. ,** उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन **भारतीय स्टेट बैंक, दनकौर रोड,**

क्र. सं.	ऋणकर्ता के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति / यों का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जे की तारीख	बकाया राशि
1.	ऋणीः 1. श्री राहुल जैन पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र	बंधक आवासीय बिल्डिंग के सभी भाग व भूखंड,	22.03.2022	20.08.2022	₹0
l	जैन, डायेक्टरः हिल्स मोबाइल एंड कंप्यूटर्स	माप क्षेत्रफल 66.90 वर्ग मीटर, स्थित मीहल्ला-			26,10,499.13
l	इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जीटी रोड, चौधरीवाड़ा,	चिसयावारा, सिंकरदाबाद, बुलदंशहर, उ०प्र०-			दिनांक
l		203205, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती उषा जैन पत्नी			22.03.2022
l	2. श्री रजत जैन पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र जैन,	स्व0 श्री सुरेन्द्र जैन, बुक नं0 1, वॉल्यूम नं0			+ ब्याज एवं
l	डायेक्टर, हिल्स मोबाइल एंड कंप्यूटर्स इंडिया	5844, पेज नं0 23-48, क्र0सं0 2197, दिनांक			अन्य खर्चे
l	प्राइवेट लिमिटेड, जी रोड, चौधरीवाड़ा,	06.03.2014, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस, सिकंदराबाद,			01194
l	सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उ०प्र0- 203205,	बुलंदशहर, उ0प्र0- 203205			
	- 0 0 0 0 0				

सिंकंदराबाद शाखा बुलंदशहर को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भूगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

3. श्रीमती उषा जैन पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र जैन, सरावगीवारा, निकट जैन मंदिर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उ०प्र०- 203205 प्राधिकृत अधिकारी दिनांक—04.08.2022 स्थान – बुलंदशहर

HI-TOCH हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड

(CIN: L27202DL19850PLC019750) पंजी. कार्यालयः 505, पर्ल्स ओमेक्स टॉवर, एनएसपी, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 फोनः +91-11-48440050.

www.hitechpipes.in, info@hitechpipes.in. सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक और कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बंधवार, 10 अगस्त, 2022 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ, 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामो (एकल एवं समेकित) पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hitechpipes.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.nseindia.com.

इसके अलावा सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015, के लागू विनियमों के अनुसरण में, कंपनी के इक्विटी शेयरों के लेनदेन के लिए "ट्रेडिंग विन्डो" जो 1 जुलाई, 2022 से बंद थी, अब 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेगी।

www.bseindia.com पर भी उपलब्घ है।

कृते **हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड** हस्ता./-स्थानः नई दिल्ली अरूण कुमार

(₹ in lakhs

ICRA

ICRA Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001
Telephone No.:+91-11-23357940; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

3.	Particulars	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter ended June 30, 2021 (Unaudited)
	Total income from operations	4,927.55	19,473.14	4,606.34
	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	4,059.75	9,334.87	3,078.08
}	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	4,059.75	9,334.87	3,078.08
	Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3,191.18	7,330.93	2,600.72
,	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	3,170.80	7,378.13	2,633.51
;	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
,	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	-	65,513.30	-
;	Earnings per share (of ₹ 10/- each)			
	Basic:	33.17	76.21	27.04
	Diluted :	33.17	76.21	27.04

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

				(₹ in lakhs
S.	Particulars	Quarter ended June 30, 2022 (Unaudited)	Year ended March 31, 2022 (Audited)	Quarter ended June 30, 2021 (Unaudited)
1	Total income from operations	9,251.95	34,280.52	7,986.58
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	3,647.39	15,208.63	3,314.27
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3,647.39	15,208.63	3,314.27
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	2,164.76	11,353.24	2,433.75
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	2,040.62	11,315.54	2,418.22
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	-	83,395.91	-
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) -			
	Basic:	22.09	116.74	24.90
	Diluted:	22.09	116.74	24.90

1

3

4

5

6 7

8

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2022. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results and Limited Review Report thereon are available or the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investors section on the Company's website www.icra.ir By Order of the Board of Directors

> Ramnath Krishnan Managing Director & Group C.E.O

वेबसाइटः www.sail.co.in, Email:investor.relation@sail.in हर किसी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

Place: Gurugram Date : August 04, 2022 (DIN: 09371341)